



Jaipur International Film Festival

Chamber Bhavan, Ground Floor
Rajasthan Chamber of Commerce & Industry
Ajmeri Gate, MI Road, Jaipur-302003
T: +91-141-6500601, M: +91-8003937961
jiffindia@gmail.com, coordinator@jiffindia.org
www.jiffindia.org

Press release (19 September, 2014)

जिफ 2015 से एक और नई अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि शुरु

इंटरनेशनल स्क्रिप्ट/स्क्रीनप्ले/कहानी प्रतियोगिता - ISC@JIFF (Mind to Audience)

**लिखो, भेजो, जीतो - इंटरनेशनल लेखक बनो
अब ग्लोबल फिल्म स्क्रिप्ट्स वाया जिफ जयपुर**

जयपुर 19 सितम्बर: 7 वें जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-जिफ में इस साल से फिल्म प्रदर्शन के साथ-साथ कई सहायक गतिविधियां शामिल की जा रही हैं. समारोह के फाउंडर निदेशक हनु रोज ने बताया की भारत में बतौर लेखक कोई खाश मंच नहीं है, इस बात को मैं जिफ के साथ लगातार महसूस करता रहा हूं. सैंकड़ों लेखक हर साल शिकायत करते रहे हैं की जिफ में फिल्म लेखक के लिये अलग से स्पेशल मंच य गतिविधि होनी चाहिये. पिछले साल जिफ से राईटर्स मीट के साथ इस तरह के प्रयास जिफ में शुरु किये जा चुके हैं. इस मीट में अंजुम रजबअलि, श्रीराम राघबन, विक्रमादित्य मोट्वानी और कमलेश पाण्डे जैसे नामी लेखक जिफ में प्रतिभागियों से रुबरु हुये थे.

अब इस साल जिफ 2015 से **इंटरनेशनल स्क्रिप्ट/स्क्रीनप्ले/कहानी प्रतियोगिता - ISC@JIFF (Mind to Audience)** की शुरुआत जिफ में की जा रही है. इसके तहत कोई भी लेखक इस प्रतियोगिता में अपनी लघु (शार्ट फिल्म की कहानी/स्क्रीनप्ले) और दिर्घ कहानी (फीचर फिल्म की कहानी/स्क्रीनप्ले) सब्मिट कर सकता है. ये प्रतियोगिता भारत में अपने आप में प्रथम व खास प्रतियोगिता है.

दोनों ही श्रेणियों में बेस्ट 3-3 स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले का चयन ज्यूरी द्वारा किया जायेगा और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा. साथ ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और विश्व फिल्म इंडस्ट्री में नामी निदेशक और लेखक वर्ग तक जिफ तथा जिफ के पार्टनर्स (इंकटीप इन्में मुख्य हैं) इन चयनित स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले को पहुंचायेंगे.

जिफ से बेस्ट 3 स्क्रिप्ट्स को इंकटीप लिस्टिंग (60000 लेखक इंकटीप के मेम्बर हैं) में शामिल किया जायेगा जिससे प्रोडूसर्स और बायर्स इन तक पहुंच सकेंगे.

इससे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लेखकों को एक इंटरनेशनल मंच मिल सकेगा.

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये सब्मिशन 15 दिसम्बर तक ओपन है. विश्व की नामी स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले लेखकों को मंच देने वाली संस्थायें विदाउटबॉक्स और इंकटीप पर आप ऑनलाईन भी आप अपनी स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

वहीं फिल्म सब्मीट कराने की अंतिम तिथि 30 अक्टुबर 2014 है. अधिक जानकारी के लिये जिफ की वेबसाईट www.jifindia.org विजिट की जा सकती है.

आपका

हनु रोज



फाउंडर डायरेक्टर और प्रवक्ता-जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-जिफ

Off: +91-141-6500601 Mob: 09828934481